



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस की विधायक को विधानसभा प्रवेश द्वार पर रोकने की घटना का उल्लेख किया ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधान सभा में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है और इस संबंध में निर्देश भी जारी किये गये हैं । विधायक महोदया को कार का पास भी जारी किया गया है । विधान सभा में दोपहिया वाहन से जिसे प्रवेश करना है, वह द्वार क्रमांक 01 से आयेगा । इनकी अनुमति भी उन्हें दी गई है । इसके बावजूद भी कोई जान-बूझकर के व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहे तो विधान सभा में उसके लिये कोई क्षम्य नहीं है ।

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती संगीता सिन्हा, अनुपस्थित रहीं ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 38 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

(सदन की कार्यवाही 12.00 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 10 एवं 11 मार्च, 2022 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि - आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में भोजन की व्यवस्था की गई है। समस्त माननीय मंत्रिगण, सदस्यगण, पत्रकारगण एवं वरिष्ठ अधिकारी सादर आमंत्रित हैं।

अपराह्न 01.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा